

## KENDRIYA VIDYALAYA RANAGHAT

### Class XI Admission 2020-21 Notice

**(Only for KV Ranaghat & KV Krishnanagar Students having minimum 60% in Class X)**

Dated 17/07/2020

With reference to the **KVS Admission Guidelines 2020-21**, all students **(Only of KV Ranaghat & KV Krishnanagar)** and parents are requested to download and fill up the **Option Form** & registration form available from the Vidyalaya website <https://ranaghat.kvs.ac.in/> from 17.07.2020 to 24.07.2020.

**Parents are requested to fill the option form and submit it latest by 25/07/2020 by scanning all the required documents and send it to kvranaghat.admission@gmail.com**

On the basis of option form and merit list, Provisional Admission List for Class XI for KV students will be displayed on Vidyalaya Website and Vidyalaya Notice Board on 28/07/2020.

**For Non KV students if vacancies exist, after admitting KV students, list will be displayed on 31.07.2020.**

#### **Important Instructions to Note :**

- a) It is compulsory for all Parents & Students to fill-up the option form by scheduled date. Otherwise it will be assumed that they will take TC of Class X pass and their Candidature for admission in Class XI, will be cancelled.
- b) **Documents to be attached and emailed with the Option Form/Registration form while submitting :**  
**For KV Ranaghat students:** Option form, Print out of mark sheet as downloaded from CBSE website, Photo copy of Caste Certificate in the name of the Student if belongs to SC / ST / OBC, photocopy of birth certificate, SGC(if applicable) Affidavit, photocopy of Aadhar card, one copy photograph.  
**For KV Krishnanagar students:** Option form, Registration form, Attested Print out of mark sheet as downloaded from CBSE website, Photo copy of Caste Certificate in the name of the Student if belongs to SC / ST / OBC, photocopy of birth certificate, SGC(if applicable) Affidavit, photocopy of Aadhar card, Blood group report, photocopy of TC, Character Certificate, Service Certificate (if applicable).  
**For Non-KV Students:**
  1. Photo copy of Class Xth Marksheet(downloaded from CBSE website)
  2. Photo copy of Caste Certificate
  3. Self Attested Copy of Birth Certificate.
  4. Documents supporting any special achievements
  5. Service certificate of the parent in original, (with transfer details showing the number of transfers during the preceding 7 years duly signed and stamped by the head of office bearing the name, designation and other relevant particulars in block letters, if applicable)
  6. A certificate of retirement for uniformed Defence employees(If applicable).
  7. Aadhar card, Voter ID card of parents, Ration Card.
  8. Caste certificate duly attested by Gazetted officer/Self Attested for SC/ST/ EWS/OBC (Non-Creamy Layer)/BPL/Disabled, wherever applicable, issued by the competent authority in concerned State Government/Union Government)

9. Income certificate from the Employer for service holder / Self declaration of income for self employed person, in original
  10. Certificate of disability of the candidate from the competent authority, (a certificate from the civil surgeon/rehabilitation centre or any other competent authority defined by the Government of India O.M. No. 36035/5/88/Estt.(sct) dated 4.5.1999 certifying the child to be handicapped, wherever applicable
  11. Certificate of blood group of the candidate from competent authority.
  12. Affidavit from 1<sup>st</sup> Class Magistrate ensuring "Single girl Child" (if applicable)
  13. For grandchildren of Hon'ble Member of Parliament and PSU employees a proof of relationship of either of the child's parents with the Hon'ble Member of Parliament or PSU employees would be needed.
  14. For grandchildren of KVS employee a proof of relationship would be required.
- c) Complete Option form signed by both Parents and student must be submitted in stipulated date & time as mentioned above.
- d) Concession of Marks will be given only with supporting Photocopies of above mentioned documents. **No concession / relaxation will be allowed without supporting documents.** Incomplete Option Forms will be rejected and it will be assumed that they will take TC of Class X pass and their Candidature will be cancelled.
- e) Students and Parents are requested to fill the Option Form clearly and accurately. Change of options for Subject Combination will not be allowed after submission of option form.  
**Parent must give their present occupation as on date.**

( S. Rajak)  
Principal (I/C)  
KV Ranaghat

**KENDRIYA VIDYALAYA RANAGHAT**

PHOTO

**OPTION FORM FOR ADMISSION IN CLASS XI (Science)SESSION-2020-21**

**KV RANAGHAT/KV KRISHNANAGAR/ Non-KV (Tick Any One)**

- 1) Name of the candidate: \_\_\_\_\_
- 2) Name of the Father: \_\_\_\_\_
- 3) Name of the Mother: \_\_\_\_\_
- 4) Occupation of Parent and category (Central Govt./State Govt/Other): \_\_\_\_\_
- 5) Category: General/SC/ST/PH: \_\_\_\_\_
- 6) Office address with telephone no. \_\_\_\_\_
- 7) Residential address with telephone no: \_\_\_\_\_
- 8) Name of the school where last studied (mention Board): \_\_\_\_\_
- 9) Subjects to be offered(Tick ):

OPTIONS	TICK ANY ONE
English, Mathematics, Physics , Chemistry, Computer Science (** Students who are having Mathematics- Standard in Class-X 2020 )	
English, Mathematics , Physics , Chemistry, Biology (** Students who are having Mathematics- Standard in Class-X 2020 )	
English, Hindi, Physics , Chemistry, Biology (** Students who are having Mathematics- Standard or Basic in Class-X 2020 )	

- 10) Total Marks secured in Class X: \_\_\_\_\_
- 11) Marks/Grades obtained in :
- a) Mathematics(Standard/Basic)\_\_\_\_\_ b) Science: \_\_\_\_\_
- 12) Total Marks/Grade point secured in Mathematics and Science together: \_\_\_\_\_
- 13) Certificate in NCC/Scout and Guide/SGFI: \_\_\_\_\_

Signature of the Parent

Signature of the Candidate

**For Office use**

Selected/ Not selected for admission in

Science with Maths/Bio:

Science with Maths/Computer Sc:

Science with Hindi/Bio:

Category:

**Admission I/C**

**Principal**

**REGISTRATION FORM ONLY FOR  
KV KRISHNANAGAR STUDENTS**



केंद्रीय विद्यालय \_\_\_\_\_  
Kendriya Vidyalaya \_\_\_\_\_

पंजीकरण संख्या/ Regd. No. \_\_\_\_\_

क. स./S. No. \_\_\_\_\_

सत्र/Session – 2020-21

पंजीकरण के लिए कक्षा /Registration for class.....

बच्चे का फोटो  
(पासपोर्ट साइज का)  
Photograph of the  
child  
(Passport size)

1. विद्यार्थी का पूरा नाम (स्पष्ट शब्दों में)

Name of child in full (in Capital letters) .....

लिंग/Sex - पुरुष/Male  स्त्री/Female  तृतीय लिंग/Third Gender

2. जन्म-तिथि (अंको में)/ Date of Birth (in figure)

दिन/Day   मास/Month   वर्ष/Year

शब्दों में/In words.....

31.03.2020 तक आयु/ Age as on 31.03.2020

वर्ष/Year   मास/Month   दिन/Day

3. बच्चे का रक्त समूह (Rh फैक्टर सहित)

Blood Group of the child (with Rh factor) \_\_\_\_\_

4. बच्चे की संबन्धित श्रेणी/The category to which child belong

General	SC	ST	OBC	EWS	BPL	Diff. Abled	S.G. Child
सामान्य	अनु. जाति	अनु. जनजाति	ओ.बी.सी.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	बी.पी.एल.	अन्य रूप से सक्षम	इकलौती कन्या
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

यदि बच्चा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ओ.बी.सी.(अन्य पिछड़े वर्ग)/आर्थिक रूप से कमजोर/ बी.पी.एल./ विकलांग/इकलौती कन्या श्रेणी से सम्बंधित है तो कृपया संबन्धित प्रमाण-पत्र संलग्न करें।

If the child belongs to SC/ST/OBC/EWS/BPL/Disabled/S.G. Category, then, please attach relevant certificate.

5. माता-पिता का विवरण/Details of Mother/ Father -

क्र. स.		माता/ Mother	पिता/Father
(i)	नाम (स्पष्ट शब्दों में)/Name (in Capital letters)		
(ii)	राष्ट्रीयता/Nationality		
(iii)	व्यवसाय/Occupation		
(iv)	कार्यालय का नाम, पूरा पता व दूरभाष Name of Office and full address and Telephone number.		
(v)	पूर्ण आवासीय पता व दूरभाष (प्रमाण सहित) Full residential address and Tel. no. (with poof)		
(vi)	विद्यालय से दूरी (कि.मी.में)/ Distance from KV (in km) *		
(vii)	मूल वेतन/Basic Pay		
(viii)	स्थानांतरणों की संख्या No. of Transfers **		
(ix)	माता-पिता की श्रेणी Category of the Parent #		
(x)	कर्मचारी कोड (यदि है तो)Employee Code (if any)		

\* विद्यालय से आवास की दूरी। दूरी के लिए माता-पिता/अभिभावक का शपथ-पत्र मान्य है। आवास प्रमाण-पत्र देना आवश्यक है।  
Distance of Residence from Vidyalaya. Undertaking from parents is acceptable for distance. Proof of Residence is compulsory.

\*\* 31.03.2020 तक पिछले सात वर्ष में स्थानांतरणों की संख्या/ No. of transfers during last 7 years as on 31.03.2020

# 1. केन्द्रीय सरकार/Central Govt 2. केन्द्रीय सरकार के स्वायत्त संस्थान/Autonomous bodies of Central Govt. 3. राज्य सरकार/ State Govt. 4. राज्य सरकार के स्वायत्त संस्थान/Autonomous bodies of State Govt. 5. अन्य/Others

मैं एतद द्वारा यह प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपर्युक्त प्रविष्टियाँ मेरी जानकारी में सत्य हैं।

I certify that the above entries are true to the best of my knowledge.

माता/पिता/अभिभावक के हस्ताक्षर  
Signature of Mother/Father/Guardian

दिनांक/ Date: .....

पूरा नाम/Full Name.....

क्र. स./S. No.

पावती/Acknowledgement

सत्र/Session – 2020-21

पंजीकरण संख्या/Registration No. ....

श्री/श्रीमती .....से उनके पुत्र/पुत्री .....का कक्षा .....में प्रवेश हेतु पंजीकरण के लिए आवेदन प्राप्त किया।

Received an application from Shri/Smt..... for registration of her/ his son/ daughter.....for admission to class.....

प्राचार्य/ Principal

तिथि/ Date.....

केन्द्रीय विद्यालय (मोहर) Kendriya Vidyalaya (Stamp)

## सेवा प्रमाण-पत्र/SERVICE CERTIFICATE

(केन्द्रीय सरकार/Central Govt.)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती-----, -----  
----- कार्यालय/मंत्रालय में नियमित कर्मचारी के रूप में कार्यरत है। वे रक्षा सेवा/केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस बल/सीमा सुरक्षा बल/एन.एस.जी./एस.पी.जी./सी.आई.एस.एफ./केन्द्रीय सरकार स्वायत्त संस्था अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जो पूर्ण या आंशिक रूप से केंद्र सरकार से वित्त-पोषित है, के नियमित कर्मचारी हैं तथा उनकी सेवा अस्थानांतरणीय है/पूर्ण भारत में कहीं भी स्थानांतरणीय है।

Certified that Shri/Smt.....is working as regular employee in the office/Ministry of ..... He/She is a regular employee of Defence Service/CRPF/BSF/NSG/SPG/CISF/Central Govt./Autonomous Body/Public Sector Undertaking fully financed/partially financed by Central Govt. and his/her services are non-transferable/transferable anywhere in India.

कार्यालय अध्यक्ष के हस्ताक्षर  
(नाम, पद और कार्यालय की मोहर सहित)  
Signature of Head of the Office  
(With Name, Designation and Office Stamp)

स्थान/Place \_\_\_\_\_

दिनांक/Date \_\_\_\_\_

कार्यालय का पूर्ण पता एवं दूरभाष संख्या \_\_\_\_\_  
Complete address and Telephone No. of office \_\_\_\_\_

## सेवा प्रमाण-पत्र/SERVICE CERTIFICATE

(राज्य-सरकार/State Govt.)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती-----, -----  
-----कार्यालय/मंत्रालय में नियमित कर्मचारी के रूप में कार्यरत है। तथा उनकी सेवा अस्थानांतरणीय है/पूर्ण राज्य में कहीं भी स्थानांतरणीय है।

Certified that Shri/Smt..... is permanently working in the office/Ministry of ..... and his/her services are non-transferable/transferable anywhere in State.

कार्यालय अध्यक्ष के हस्ताक्षर  
(नाम, पद और कार्यालय की मोहर सहित)  
Signature of Head of the Office  
(With Name, Designation and Office Stamp)

स्थान/Place \_\_\_\_\_

दिनांक/Date \_\_\_\_\_

कार्यालय का पूर्ण पता एवं दूरभाष संख्या \_\_\_\_\_  
Complete address and Telephone No. of office \_\_\_\_\_

**स्थानांतरण संख्या प्रमाण-पत्र/CERTIFICATE OF NUMBER OF TRANSFERS**

मैं, \_\_\_\_\_ (नाम) \_\_\_\_\_ (रैंक/पदनाम) \_\_\_\_\_ (कार्यालय),  
एतद द्वारा प्रमाणित करता/करती हूँ पिछले सात साल ( \_\_\_\_\_ तक) में एक स्थान से दूसरे स्थान पर मेरे  
\_\_\_\_\_ (अंको व शब्दों में) स्थानांतरण हुए जिनका विवरण नीचे दिया गया है-

I, \_\_\_\_\_ (Name) \_\_\_\_\_ (rank/ designation) of \_\_\_\_\_ (office), do  
hereby certify that during the past 7 years (up to 31.03.2020) I have been transferred \_\_\_\_\_  
times (in figures & in words) from one station to another, the details of which are given as under :-

क्र. स. S. No.	कार्यालय/ यूनिट Office/Unit	स्थान Place	रैंक/पदनाम Rank/Designation	दिनांक/Date		ठहरने की अवधि Period of stay	आदेश संख्या Order No.
				से/ From	तक/To		
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							

मैं जानता/जानती हूँ कि यदि उपरोक्त तथ्य गलत पाए गए तो मेरा बच्चा केन्द्रीय विद्यालय में प्रवेश के लिए  
अयोग्य हो जाएगा। I know that if the above-mentioned facts are found incorrect, my child will be disqualified for  
admission in Kendriya Vidyalaya.

माता/पिता के हस्ताक्षर  
Signature of Parent

**प्रतिहस्ताक्षर/Countersignature**

मैं, \_\_\_\_\_ (नाम) \_\_\_\_\_ (रैंक/पदनाम) \_\_\_\_\_  
(कार्यालय), एतद द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त विवरण को कार्यालय-आलेखों से जाँच लिया गया है व सही  
पाया गया है।

I, \_\_\_\_\_ (name) \_\_\_\_\_ (rank/designation) of \_\_\_\_\_  
(unit/department) hereby certify that the particulars given in above have been authenticated by the records held in  
the office and found correct.

कार्यालय अध्यक्ष के हस्ताक्षर  
(नाम, पद और कार्यालय की मोहर सहित)  
Signature of Head of the Office  
स्थान/Place \_\_\_\_\_  
दिनांक/Date \_\_\_\_\_  
(With Name, Designation and Office Stamp)

कार्यालय का पूर्ण पता एवं दूरभाष संख्या \_\_\_\_\_  
Complete address and Telephone No. of office \_\_\_\_\_

**टिपण्णी/Note-**

एक स्थान पर ठहरने की अवधि कम से कम छह मास होनी चाहिए।  
Minimum period of posting/stay at a place should be minimum six months.



सेवा-कालीन मृत्यु प्रमाण-पत्र / DIED IN HARNESS CERTIFICATE  
(केवल केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए/Only for Central Govt. Employees)

प्रमाणित किया जाता है कि कुमार/कुमारी ----- स्वर्गीय श्री/श्रीमती -----के पुत्र/पुत्री हैं जो ----- (कार्यालय/विभाग) में नियमित रूप से सेवारत थे/थीं और उनका देहावसान सेवाकाल की अवधि में दिनांक -----को हो गया था।

Certified that Master/Miss \_\_\_\_\_ is the son/daughter of Late Sh./Smt. \_\_\_\_\_ who was regular employee of \_\_\_\_\_ (Office/Department) and he/she died in harness (while in service) on \_\_\_\_\_ (date).

स्थान/Place \_\_\_\_\_  
दिनांक/Date \_\_\_\_\_

कार्यालय अध्यक्ष के हस्ताक्षर  
(नाम, पद और कार्यालय की मोहर सहित)  
Signature of Head of the Office  
(With Name, Designation and Office Stamp)

कार्यालय का पूर्ण पता एवं दूरभाष संख्या \_\_\_\_\_  
Complete address and Telephone No. of office \_\_\_\_\_